



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042025-262688
CG-DL-E-25042025-262688

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/वैशाख 5, 1947

No. 221]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/VAISAKHA 5, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 260(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन, चिकित्सा युक्ति ऊर्ध्वाधर में (समूह “क” और “ख” पद) भर्ती नियम 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन, चिकित्सा युक्ति ऊर्ध्वाधर (समूह “क” और “ख” पद) भर्ती (संशोधन) नियम 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन, चिकित्सा युक्ति ऊर्ध्वाधर में (समूह “क” और “ख” पद) भर्ती नियम 2024 की अनुसूची में :-

- (i) सहायक ओषधि नियंत्रक (I) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ (11) में, उपशीर्षक प्रोन्नति के अधीन, टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर ओषधि निरीक्षक (चिकित्सा युक्तियां) का पद धारण करने वाले पदधारियों के लिए पात्रता सेवा, ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा होगी।”

- (ii) ओषधि निरीक्षक (चिकित्सा युक्तियां) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ (7) में, उपशीर्षक “अर्हता” के अधीन, “इंजीनियरी प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री;” शब्दों के स्थान पर, “इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री;” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. ए.-12018/02/2023-डीआरएस]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 689 (अ), रीख 06 नवंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2025

G.S.R. 260(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Medical Device Vertical (Group ‘A’ and ‘B’ Posts), Recruitment Rules, 2024, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Medical Device Vertical (Group ‘A’ and ‘B’ Posts), Recruitment (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Medical Device Vertical (Group 'A' and 'B' Posts), Recruitment Rules, 2024.

- (i) against serial number 4 relating to the post of Assistant Drugs Controller (I), in column (11), under the sub-heading promotion, for the Note, the following Notes shall be substituted, namely:-

“**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The eligibility service for the incumbents holding the post of Drugs Inspector (Medical Devices) on regular basis on the date of commencement of these rules, shall be six years of regular service in the grade.”;

- (ii) against serial number 5 relating to the post of Drugs Inspector (Medical Devices), in column (7), under sub-heading “Qualification”, for the words “Bachelors of engineering technology in Bio Medical”, the words “Bachelors of engineering or technology in Bio Medical” shall be substituted.

[F. No. A-12018/02/2023-DRS]

RAJIV WADHAWAN, Advisor (Cost)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 689 (E), dated the 6th November, 2024.